

Rom

Chapter 15

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Ὄφειλομεν δὲ, ἡμεῖς οἱ δυνατοί, τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
चाहिए परन्तु हम जो समर्थ -को दुर्बलताओं-को -की असमर्थों-की
[G3784](#) [G1161](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1415](#) [G3588](#) [G0771](#) [G3588](#) [G0102](#)
- βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.
सहना और नहीं अपने-आप-को प्रसन्न-करना
[G0941](#) [G2532](#) [G3361](#) [G1438](#) [G0700](#)

हम जो आत्मिक रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हें उनकी दुर्बलता सहनी चाहिये जो शक्तिशाली नहीं हैं। हम बस अपने आपको ही प्रसन्न न करें।

- 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω, εἰς τὸ ἀγαθόν, πρὸς οἰκοδομήν.
हर-एक हम-में-से -के पड़ोसी-को प्रसन्न-करे -के-लिए -के भलाई-के -के-लिए उन्नति-के
[G1538](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4139](#) [G0700](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0018](#) [G4314](#) [G3619](#)

हम में से हर एक, दूसरों की अच्छाइयों के लिए इस भावना के साथ कि उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो, उन्हें प्रसन्न करे।

- 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν; ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται, Οἱ
भी क्योंकि वह मसीह नहीं अपने-आप-को प्रसन्न-किया परन्तु जैसा लिखा-है वे
[G2532](#) [G1063](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3756](#) [G1438](#) [G0700](#) [G0235](#) [G2531](#) [G1125](#) [G3588](#)
- ὄνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε, ἐπάπεσαν ἐπ' ἐμέ.
निन्दाएँ -की निन्दा-करनेवालों-की तेरी गिरिं -पर मुझ-पर
[G3680](#) [G3588](#) [G3679](#) [G4771](#) [G1968](#) [G1909](#) [G1473](#)

यहाँ तक कि मसीह ने भी स्वयं को प्रसन्न नहीं किया था। बल्कि जैसा कि मसीह के बारे में शास्त्र कहता है: "उनका अपमान जिन्होंने तेरा अपमान किया है, मुझ पर आ पड़ा है।"

- 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, (πάντα) εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη,
जितना-भी क्योंकि पहले-लिखा-गया सब -के-लिए -की हमारी शिक्षा-के-लिए लिखा-गया
[G3745](#) [G1063](#) [G4270](#) [G3956](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2251](#) [G1319](#) [G1125](#)
- ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν, τὴν
कि -से -की धैर्य-से और -से -की सान्त्वना-से -की पवित्र-शास्त्रों-से -को
[G2443](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5281](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3874](#) [G3588](#) [G1124](#) [G3588](#)
- ἐλπίδα ἔχωμεν.
आशा रखें
[G1680](#) [G2192](#)

हर वह बात जो शास्त्रों में पहले लिखी गयी, हमें शिक्षा देने के लिए थी ताकि जो धीरज और बढ़ावा शास्त्रों से मिलता है, हम उससे आशा प्राप्त करें।

- 5 ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, δῶη ὑμῖν τὸ
वह परन्तु परमेश्वर -की धैर्य-का और -की सान्त्वना-का दे तुम्हें वही
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G5281](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3874](#) [G1325](#) [G4771](#) [G3588](#)
- αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,
एक सोचना में एक-दूसरे-में अनुसार मसीह यीशु-के
[G0846](#) [G5426](#) [G1722](#) [G0240](#) [G2596](#) [G5547](#) [G2424](#)

और समूचे धीरज और बढ़ावे का स्रोत परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि तुम लोग एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के उदाहरण पर चलते हुए आपस में मिल जुल कर रहो।

6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν, ἐν ἐνὶ στόματι, δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα
 कि एकमन-से में एक मुख-से, महिमा-करो -को परमेश्वर-को और पिता-को
[G2443](#) [G3661](#) [G1722](#) [G1520](#) [G4750](#) [G1392](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3962](#)

τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 -के प्रभु-के हमारे यीशु मसीह-के
[G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

ताकि तुम सब एक साथ एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमपिता, परमेश्वर को महिमा प्रदान करो।

7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς,
 इसलिए ग्रहण-करो एक-दूसरे-को जैसा भी वह मसीह ग्रहण-किया तुम्हें
[G1352](#) [G4355](#) [G0240](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G4355](#) [G4771](#)

εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ.
 -के-लिए महिमा-के -के परमेश्वर-की
[G1519](#) [G1391](#) [G3588](#) [G2316](#)

इसलिए एक दूसरे को अपनाओ जैसे तुम्हें मसीह ने अपनाया। यह परमेश्वर की महिमा के लिए करो।

8 λέγω γὰρ, Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ,
 कहता-हूँ क्योंकि मसीह सेवक बना खतने-का -के-लिए सच्चाई-के परमेश्वर-की
[G3004](#) [G1063](#) [G5547](#) [G1249](#) [G1096](#) [G4061](#) [G5228](#) [G0225](#) [G2316](#)

εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
 -के-लिए -को पुष्टि-करने-के-लिए -को प्रतिज्ञाओं -की पितरों-की
[G1519](#) [G3588](#) [G0950](#) [G3588](#) [G1860](#) [G3588](#) [G3962](#)

मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यह प्रकट करने को कि परमेश्वर विश्वसनीय है उनके पुरखों को दिये गए परमेश्वर के वचन को दृढ़ करने को मसीह यहूदियों का सेवक बना।

9 τὰ δὲ ἔθνη, ὑπὲρ ἐλέους, δοξάσαι τὸν Θεόν; καθὼς γέγραπται,
 वे परन्तु जातियाँ -के-लिए दया-के महिमा-करें -को परमेश्वर-की जैसा लिखा-है
[G3588](#) [G1161](#) [G1484](#) [G5228](#) [G1656](#) [G1392](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2531](#) [G1125](#)

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνόματί σου
 इसी-कारण यह अंगीकार-करूँगा तेरी में जातियों-में और -को नाम-का तेरे
[G1223](#) [G3778](#) [G1843](#) [G4771](#) [G1722](#) [G1484](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3686](#) [G4771](#)

ψαλῶ.
 गाऊँगा
[G5567](#)

ताकि ग़ैर यहूदी लोग भी परमेश्वर को उसकी करुणा के लिए महिमा प्रदान करें। शास्त्र कहता है: “इसलिये ग़ैर यहूदियों के बीच तुझे पहचानूँगा और तेरे नाम की महिमा गाऊँगा।”

10 καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
 और फिर कहता-है आनन्दित-हो जातियो -के-साथ -के लोगों-के उसके
[G2532](#) [G3825](#) [G3004](#) [G2165](#) [G1484](#) [G3326](#) [G3588](#) [G2992](#) [G0846](#)

और यह भी कहा गया है, “हे ग़ैर यहूदियों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ प्रसन्न रहो।”

11 καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη, τὸν Κύριον; καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν,
 और फिर स्तुति-करो सब वे जातियो -को प्रभु-की और प्रशंसा-करें उसकी
[G2532](#) [G3825](#) [G0134](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3588](#) [G2962](#) [G2532](#) [G1867](#) [G0846](#)

πάντες οἱ λαοί.
 सब वे लोग
[G3956](#) [G3588](#) [G2992](#)

और फिर शास्त्र यह भी कहता है, “हे ग़ैर यहूदी लोगो, तुम प्रभु की स्तुति करो। और सभी जातियो, परमेश्वर की स्तुति करो।”

12 καὶ πάλιν, Ἡσαΐας λέγει, Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσοῦ, καὶ ὁ
 और फिर यशायाह कहता-है होगी वह जड़ -की यिश्-की और जो
[G2532](#) [G3825](#) [G2268](#) [G3004](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4491](#) [G3588](#) [G2421](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν; ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἔλπιουσιν.
 उठनेवाला शासन-करने-के-लिए जातियों-पर -पर उस-पर जातियाँ आशा-करेंगी
[G0450](#) [G0757](#) [G1484](#) [G1909](#) [G0846](#) [G1484](#) [G1679](#)

और फिर यशायाह भी कहता है, "यिश्-की का एक वंशज प्रकट होगा जो गैर यहूदियों के शासक के रूप में उभरेगा। गैर यहूदी उस पर अपनी आशा लगाएँगे।"

13 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης,
 वह परन्तु परमेश्वर -की आशा-का भर-दे तुम्हें सब आनन्द-से और शान्ति-से
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1680](#) [G4137](#) [G4771](#) [G3956](#) [G5479](#) [G2532](#) [G1515](#)

ἐν τῷ πιστεύειν; εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν
 में -के विश्वास-करने-में -के-लिए -को बढ़ने-के-लिए तुम्हें में -में आशा-में में
[G1722](#) [G3588](#) [G4100](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4052](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1680](#) [G1722](#)

δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου.
 सामर्थ्य-से आत्मा-की पवित्र
[G1411](#) [G4151](#) [G0040](#)

सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर, तुम्हें सम्पूर्ण आनन्द और शान्ति से भर दे जैसा कि उसमें तुम्हारा विश्वास है। ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ।

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ
 दृढ़-हूँ परन्तु भाइयो मेरे भी स्वयं मैं विषय-में तुम्हारे कि भी तुम-स्वयं
[G3982](#) [G1161](#) [G0080](#) [G1473](#) [G2532](#) [G0846](#) [G1473](#) [G4012](#) [G4771](#) [G3754](#) [G2532](#) [G0846](#)

μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως, δυνάμενοι καὶ
 भरे-हो हो भलाई-से परिपूर्ण सब -के ज्ञान-से समर्थ भी
[G3324](#) [G1510](#) [G0019](#) [G4137](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1108](#) [G1410](#) [G2532](#)

ἀλλήλους νοθετεῖν.
 एक-दूसरे-को चेटावनी-देने-में
[G0240](#) [G3560](#)

हे मेरे भाईयों, मुझे स्वयं तुम पर भरोसा है कि तुम नेकी से भरे हो और ज्ञान से परिपूर्ण हो। तुम एक दूसरे को शिक्षा दे सकते हो।

15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμνήσκων ὑμᾶς,
 साहस-से परन्तु लिखा तुम्हें -से भाग-में जैसे याद-दिलाते-हुए तुम्हें
[G5112](#) [G1161](#) [G1125](#) [G4771](#) [G0575](#) [G3313](#) [G5613](#) [G1878](#) [G4771](#)

διὰ τὴν χάριν τὴν δοθειῶν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
 -से -की अनुग्रह-के वह दी-गई मुझे -से -के परमेश्वर-द्वारा
[G1223](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G1325](#) [G1473](#) [G5259](#) [G3588](#) [G2316](#)

किन्तु तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिये मैंने कुछ विषयों के बारे में साफ साफ लिखा है। मैंने परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझे मिला है, उसके कारण यह किया है।

16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη,
 -के-लिए -को होना मैं सेवक मसीह-का यीशु-का -के-लिए -की जातियों-के-लिए
[G1519](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1473](#) [G3011](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1484](#)

ἱερουροῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν
 याजकीय-सेवा-करता-हूँ -को सुसमाचार-का -के परमेश्वर-के कि हो वह भेंट -की
[G2418](#) [G3588](#) [G2098](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2443](#) [G1096](#) [G3588](#) [G4376](#) [G3588](#)

ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
 जातियों-की ग्रहणयोग्य पवित्र-की-गई में आत्मा-में पवित्र
[G1484](#) [G2144](#) [G0037](#) [G1722](#) [G4151](#) [G0040](#)

यानी मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बन कर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक याजक के रूप में काम करूँ ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिये पूरी तरह पवित्र बनें।

17 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τὰ πρὸς τὸν Θεόν.
 रखता-हूँ इसलिए वह घमण्ड में मसीह-में यीशु-में वे-बातें -के-लिए -के परमेश्वर-की
[G2192](#) [G3767](#) [G3588](#) [G2746](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)

| सो मसीह यीशु में एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के प्रति अपनी सेवा का मुझे गर्व है।

18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν, ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι' ἐμοῦ,
 नहीं क्योंकि साहस-करूँगा कुछ बोलने-को -का नहीं काम-किया मसीह-ने -से मेरे-द्वारा
[G3756](#) [G1063](#) [G5111](#) [G5100](#) [G2980](#) [G3739](#) [G3756](#) [G2716](#) [G5547](#) [G1223](#) [G1473](#)

εἰς ὑπακοήν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,
 -के-लिए आज्ञाकारिता-के जातियों-की वचन-से और कार्य-से
[G1519](#) [G5218](#) [G1484](#) [G3056](#) [G2532](#) [G2041](#)

| क्योंकि मैं बस उन्हीं बातों को कहने का साहस रखता हूँ जिन्हें मसीह ने ग़ैर यहूदियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने का रास्ता दिखाने का काम मेरे वचनों, मेरे कर्मों,

19 ἐν δυνάμει σημεῖων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος [θεοῦ]; ὥστε
 में सामर्थ्य-में चिह्नों-की और अद्भुतों-की में सामर्थ्य-में आत्मा-की परमेश्वर-की इस-प्रकार
[G1722](#) [G1411](#) [G4592](#) [G2532](#) [G5059](#) [G1722](#) [G1411](#) [G4151](#) [G2316](#) [G5620](#)

με ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ, πεπληρωκένας τὸ
 मैंने -से यरूशलेम और चारों-ओर -तक -के इल्लुरिकुम पूरा-किया -को
[G1473](#) [G0575](#) [G2419](#) [G2532](#) [G2945](#) [G3360](#) [G3588](#) [G2437](#) [G4137](#) [G3588](#)

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ;
 सुसमाचार-को -के मसीह-के
[G2098](#) [G3588](#) [G5547](#)

| आश्चर्य चिह्नों और अद्भुत कामों की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से, मेरे द्वारा पूरा किया। सो यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम के चारों ओर मसीह के सुसमाचार के उपदेश का काम मैंने पूरा किया।

20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα
 इस-प्रकार परन्तु उत्सुक-होकर सुसमाचार-सुनाने-को नहीं जहाँ नाम-लिया-गया मसीह-का कि
[G3779](#) [G1161](#) [G5389](#) [G2097](#) [G3756](#) [G3699](#) [G3687](#) [G5547](#) [G2443](#)

μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ;
 नहीं -पर दूसरे-की नींव बनाऊँ
[G3361](#) [G1909](#) [G0245](#) [G2310](#) [G3618](#)

| मेरे मन में सदा यह अभिलाषा रही है कि मैं सुसमाचार का उपदेश वहाँ दूँ जहाँ कोई मसीह का नाम तक नहीं जानता, ताकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नींव पर निर्माण न करूँ।

21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Ὁψονται, «οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ»; καὶ
 परन्तु जैसा लिखा-है देखेंगे वे नहीं बताया-गया विषय-में उसके और
[G0235](#) [G2531](#) [G1125](#) [G3708](#) [G3739](#) [G3756](#) [G0312](#) [G4012](#) [G0846](#) [G2532](#)

οἱ οὐκ ἀκηκόασιν, συνήσουσιν.
 जिन्होंने नहीं सुना-है समझेंगे
[G3739](#) [G3756](#) [G0191](#) [G4920](#)

| किन्तु शास्त्र कहता है: "जिन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया है, वे उसे देखेंगे। और जिन्होंने सुना तक नहीं है, वे समझेंगे।"

22 Διὸ καὶ ἐνεκοπήσθη τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
 इसलिए भी रोका-गया-था -को बहुत-बार -से आने-को -के-पास तुम्हारे
[G1352](#) [G2532](#) [G1465](#) [G3588](#) [G4183](#) [G3588](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#)

| मेरे ये कर्तव्य मुझे तुम्हारे पास आने से बार बार रोकते रहे हैं।

23	νυνὶ	δὲ,	μηκέτι	τόπον	ἔχων	ἐν	τοῖς	κλίμασι	τούτοις,	ἐπιποθίαν	δὲ
	अब	परन्तु	अब-नहीं	स्थान	रखता-हूँ	में	-में	प्रदेशों-में	इन	लालसा	परन्तु
	G3570	G1161	G3371	G5117	G2192	G1722	G3588	G2824	G3778	G1974	G1161
	ἔχων	τοῦ	ἐλθεῖν	πρὸς	ὕμᾱς,	ἀπὸ	ἱκανῶν	ἐτῶν,			
	रखता-हूँ	-से	आने-की	-के-पास	तुम्हारे	-से	बहुत-से	वर्षों-से			
	G2192	G3588	G2064	G4314	G4771	G0575	G2425	G2094			

किन्तु क्योंकि अब इन प्रदेशों में कोई स्थान नहीं बचा है और बहुत बरसों से मैं तुमसे मिलना चाहता रहा हूँ,

24	ὡς	ἂν	πορεύωμαι	εἰς	τὴν	Σπανίαν,	ἐλπίζω	γὰρ	διαπορευόμενος		
	जब	कभी	जाऊँ	-में	-की	स्पेन	आशा-करता-हूँ	क्योंकि	जाते-हुए		
	G5613	G0302	G4198	G1519	G3588	G4681	G1679	G1063	G1279		
	θεάσασθαι	ὕμᾱς;	καὶ	ὕφ'	ὕμῶν	προπεμφθῆναι	ἐκεῖ,	ἐὰν	ὕμῶν	πρῶτον	ἀπὸ
	देखना	तुम्हें	और	-से	तुम्हारे	भेजा-जाना	वहाँ	यदि	तुम्हारे-से	पहले	-से
	G2300	G4771	G2532	G5259	G4771	G4311	G1563	G1437	G4771	G4412	G0575
	μέρους	ἐμπλησθῶ.									
	भाग-में	तृप्त-होऊँ									
	G3313	G1705									

सो मैं जब इसपानिया जाऊँगा तो आशा करता हूँ तुमसे मिलूँगा! मुझे उम्मीद है कि इसपानिया जाते हुए तुमसे भेंट होगी। तुम्हारे साथ कुछ दिन ठहरने का आनन्द लेने के बाद मुझे आशा है कि वहाँ की यात्रा के लिए मुझे तुम्हारी मदद मिलेगी।

25	νυνὶ	δὲ	πορεύομαι	εἰς	Ἱερουσαλήμ,	διακονῶν	τοῖς	ἀγίοις.		
	अब	परन्तु	जा-रहा-हूँ	-को	यरूशलेम	सेवा-करता-हूँ	-की	पवित्रों-की		
	G3570	G1161	G4198	G1519	G2419	G1247	G3588	G0040		

किन्तु अब मैं परमेश्वर के पवित्र जनों की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूँ।

26	εὐδόκησαν	γὰρ	Μακεδονία	καὶ	Ἀχαΐα,	κοινωνίαν	τινὰ	ποιήσασθαι	εἰς	
	प्रसन्न-हुई	क्योंकि	मकिदुनिया	और	अखाया	सहभागिता	कुछ	करने-को	-के-लिए	
	G2106	G1063	G3109	G2532	G0882	G2842	G5100	G4160	G1519	
	τοὺς	πτωχοὺς	τῶν	ἀγίων	τῶν	ἐν	Ἱερουσαλήμ.			
	-के	गरीबों-के-लिए	-के	पवित्रों-के	वे	-में	यरूशलेम-में			
	G3588	G4434	G3588	G0040	G3588	G1722	G2419			

क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के कलीसिया के लोगों ने यरूशलेम में परमेश्वर के पवित्र जनों में जो दरिद्र हैं, उनके लिए कुछ देने का निश्चय किया है।

27	εὐδόκησαν	γὰρ,	καὶ	ὀφειλέται	εἰσὶν	αὐτῶν;	εἰ	γὰρ	τοῖς	πνευματικοῖς
	प्रसन्न-हुई	क्योंकि	और	कर्जदार	हैं	उनके	यदि	क्योंकि	-में	आत्मिक-बातों-में
	G2106	G1063	G2532	G3781	G1510	G0846	G1487	G1063	G3588	G4152
	αὐτῶν	ἐκοινωνήσαν	τὰ	ἔθνη,	ὀφείλουσιν	καὶ	ἐν	τοῖς	σαρκικοῖς	
	उनकी	सहभागी-हुई	वे	जातियाँ	चाहिए	भी	में	-में	शारीरिक-बातों-में	
	G0846	G2841	G3588	G1484	G3784	G2532	G1722	G3588	G4559	
	λειτουργῆσαι	αὐτοῖς.								
	सेवा-करना	उनकी								
	G3008	G0846								

हाँ, उनके प्रति उनका कर्तव्य भी बनता है क्योंकि यदि गैर यहूदियों ने यहूदियों के आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा बटाया है तो गैर यहूदियों को भी उनके लिये भौतिक सुख जुटाने चाहिये।

28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον,
यह इसलिए पूरा-करके और मुहर-लगाकर उनके-लिए -को फल-को इस
[G3778](#) [G3767](#) [G2005](#) [G2532](#) [G4972](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2590](#) [G3778](#)

ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν εἰς Σπανίαν.
चला-जाऊँगा -से तुम्हारे -को स्पेन
[G0565](#) [G1223](#) [G4771](#) [G1519](#) [G4681](#)

सो अपना यह काम पूरा करके और इकट्ठा किये गये इस धन को सुरक्षा के साथ उनके हाथों सौंप कर मैं तुम्हारे नगर से होता हुआ इसपानिया के लिये रवाना होऊँगा

29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ
जानता-हूँ परन्तु कि आते-हुए -के-पास तुम्हारे में परिपूर्णता-में आशीर्वाद-की मसीह-की
[G1492](#) [G1161](#) [G3754](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1722](#) [G4138](#) [G2129](#) [G5547](#)

ἐλεύσομαι.
आऊँगा
[G2064](#)

और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हारे लिए मसीह के पूरे आशीर्वादों समेत आऊँगा।

30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ
विनती-करता-हूँ परन्तु तुम्हें भाइयो -से -के प्रभु-के हमारे यीशु मसीह-के और
[G3870](#) [G1161](#) [G4771](#) [G0080](#) [G1223](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G2532](#)

διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνισασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς
-से -के प्रेम-के -के आत्मा-के मिलकर-संघर्ष-करना मेरे-साथ में -में प्रार्थनाओं-में
[G1223](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3588](#) [G4151](#) [G4865](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4335](#)

ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν,
-के-लिए मेरे-लिए -के-पास -के परमेश्वर-के
[G5228](#) [G1473](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)

हे भाईयों, तुमसे मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आत्मा से जो प्रेम पाते हैं, उसकी साक्षी दे कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी ओर से परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रार्थनाओं में मेरा साथ दो

31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἡ διακονία
कि छुड़ाया-जाऊँ -से -से अविश्वासियों-से में -में यहूदिया-में और वह सेवा
[G2443](#) [G4506](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0544](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2449](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1248](#)

μου, ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ, εὐπρόσδεκτος τοῖς ἀγίοις γένηται;
मेरी जो -के-लिए यरूशलेम-के ग्रहणयोग्य -के पवित्रों-के हो
[G1473](#) [G3588](#) [G1519](#) [G2419](#) [G2144](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1096](#)

कि मैं यहूदियों में अविश्वासियों से बचा रहूँ और यरूशलेम के प्रति मेरी सेवा को परमेश्वर के पवित्र जन स्वीकार करें।

32 ἵνα ἐν χαρᾷ, ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ, συναναπαύσωμαι
कि मैं आनन्द-से आकर -के-पास तुम्हारे -से इच्छा-से परमेश्वर-की विश्राम-पाऊँ
[G2443](#) [G1722](#) [G5479](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1223](#) [G2307](#) [G2316](#) [G4875](#)

ὑμῖν.
तुम्हारे-साथ
[G4771](#)

ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ आनन्द मना सकूँ।

33 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν.
वह परन्तु परमेश्वर -की शान्ति-का -के-साथ सब तुम्हारे आमीन
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1515](#) [G3326](#) [G3956](#) [G4771](#) [G0281](#)

सम्पूर्ण शांति का धाम परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। आमीन।